

सेवारत रक्षा कार्मिकों हेतु प्रमाण-पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे अभिलेखों के अनुसार क्रमांक (संख्या)  
पद (रैंक) \_\_\_\_\_, नाम

अपने सशस्त्र बलों में निर्धारित कार्यकाल की अवधि को दिनांक

\_\_\_\_\_ को पूर्ण करने वाले हैं।

(कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

स्थान:

दिनांक:

NMIL



CSIR-National Metallurgical Laboratory  
(Council of Scientific & Industrial Research)  
Jamshedpur-831007

**Application form for the post of Driver against the Advt. No. 06/2025**

**Last date for receipt of duly filled in hardcopy of applications: 18.12.2025 (Thursday)**  
**upto 17:45 hours)**

Post Code: D-1

Name of the applicant (In block letters)		Kindly paste a passport size colour photo (not more than three months old)
Date of birth (as per 10 <sup>th</sup> certificate)		
Sex (M/F/Others)		
Marital status (Married/Unmarried/ widowed/judicially separated)		
Whether PwBD	Yes / No; if yes, Percentage of disability: Type of disability: Certificate No. & date: Certificate issuing authority:	
Category (SC / ST / OBC / EWS/UR)		
Whether Ex-serviceman	Yes / No; if yes, Date of entry in to service: Date of discharge: Designation last held: PPO No. & date: Whether already secured Govt. employment in a seat reserved for Ex-SM: Y/N	
Whether CSIR employee	Yes / No; if yes, Designation: Place of Posting:	
Father's / husband's name		
Mother's name		
Permanent Address		
Address for correspondence		

Signature of the candidate

e-mail	
Mobile No.	

Education Qualification (10<sup>th</sup> / Matriculation onwards)

Exam passed / Degree / Diploma	Years of passing	Board / Council / University / Institute	Subject (s) studied	Percentage of marks

Details of Driving License (Must be valid for driving both HMV and LMV):

No.	Date of issue	Date till valid	Issuing authority	District & State where issued

Experience of driving:

Name and full address of the employer	Whether permanent or temporary or part time	Pay per month	Duration		Drove LMV or HMV or both	Drove Passenger vehicle or good vehicle or both
			From	To		

Whether the applicant has knowledge of motor mechanism and will be able to remove minor defects in vehicle: Yes / No

Other experience / work details, if any:

Name and full address of the employer	Whether permanent or temporary or part time	Pay per month	Duration		Name of the Post held / holding	Duties performed / performing
			From	To		

Whether any close relative in CSIR / CSIR-NML or any other Lab / Institute of CSIR: Yes / No

If yes, kindly provide the following information:

Name of the relative	Post in which working	Lab / Institute	Relation with the applicant

Examination fee payment details:

Amount paid:

Date of payment:

Ref/Receipt No.:

Any other relevant information:

Declaration by applicant

I hereby declare that the information furnished by me in this application form is true and correct to the best of my knowledge. I understand that my candidature will be cancelled forthwith in case any of the information furnished by me is found to be false, incorrect or any discrepancy noted during the recruitment process. I understand further that my service will be terminated immediately even after my selection to the post also, in case any discrepancy / malafide is detected, at any time, in the above information furnished by me.

Signature of the applicant

Date:

Place: